



Prakash Industries Limited

Srivan, Bijwasan, New Delhi - 110061

CIN : L27109HR1980PLC010724

Tel. : +91-11-41155320 / 41155321 / 41155322

E-mail : pilho@prakash.com, Website. : www.prakash.com

PIL/SE/UFR/Q1/2025-26

12th August, 2025

Listing Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051

Company Code : 506022

Company Symbol : PRAKASH

Sub : ***Newspaper clippings of published financial results for the
Quarter ended 30th June, 2025***

Dear Sir / Madam,

In terms of Regulation 30, 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company has published the extract of unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2025 approved by the Board of Directors in its meeting held on 11th August, 2025 in the Newspapers viz. Business Standard (English & Hindi) editions on 12th August, 2025, copies of the same are attached herewith. The same are also available on the website of the Company i.e. www.prakash.com.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **Prakash Industries Limited**

(Arvind Mahla)
Company Secretary

Encls : as above





वैंक ऑफ़ बरौडा
Bank of Baroda

Regional Stressed Asset Recovery Branch
Baroda Bhawan, 2nd Floor, Plot No. 13, Airport Plaza,
Durgapura, Tonk Road, Jaipur - 302018, Ph: 0141-2727166

REDEMPTION NOTICE
Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Date: 04-07-2025

To: **M/s Gawsahi Products Distributors (Borrower) Through its Prop. Mr. Shivansh Gautam S/o Mr. Shivansh Gautam**; Regd. Off. at: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, 1304/1305 in Cedar Luxuria, Iskon Road, Plot of Land Kharsa No. 248, 250, 674/252, Village Sukhiya, Tehsil-Sanganer, Distt.- Jaipur (Raj.)-302029. Add: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.)-302029

Mr. Shivansh Gautam S/o Mr. Shiv Shankar Gautam (Proprietor); Add: B-1304, 1305, Cedar Luxuria, Iskon Road, Mansarovar Extension, Jaipur (Raj.)-302029. Add: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.)-302029

Add: D-187, Bhriugu Marg, Kanti Chandra Road, Bani Park, Behind Sindhi Camp, Jaipur (Raj.)-302016. **Mrs. Kiran Gautam (Guarantor)**; R/o D-187, Bhriugu Marg, Kanti Chandra Road, Bani Park, Behind Sindhi Camp, Jaipur (Raj.)-302016. Also at: Plot No. C-97, Bani Park Extension, Sheel Nagar, Jaipur (Raj.)-302020. Also at: Plot No. C-953-A, Road No. 14, V.K.I. Industrial Area, Jaipur (Raj.)-302013

Re: Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002).

Dear Sir/Madam,

Whereas the Authorised Officer of the Bank of Baroda, Branch, Regional Stressed Asset Recover Branch address Baroda Bhawan 2nd Floor, Plot No. 13, Airport Plaza, Durgapura, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan 302018 being Secured Creditor Bank in exercise of the powers conferred u/s 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 (hereinafter referred to as "Act") read with Rules 3 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002 (hereinafter referred as "Rules") issued demand notice dated 19-09-2024 calling upon you being Borrowers (s)/ Mortgageor (s) / Guarantor (s) to repay the amount stated in the said demand notice within 60 days from receipt of said notice.

And whereas you have failed to repay the amount, the undersigned in exercise of the powers conferred u/s 13(4) of the said Act read with Rule 4 and/or Rule 8 of the Rules have taken over the Possession of Secured Assets (hereinafter referred as the said properties) more particularly described herein below Schedule.

Even after taking possession of the secured asset, you have not paid the amount due to the Bank as mentioned in above Possession Notice. Your attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets. Therefore you all are requested to pay the dues as mentioned in possession notice along with applicable interest, cost, charges & expenses within 30 days from receipt of this notice and redeem the secured asset as mentioned below. In case you fail to pay the above-mentioned dues & redeem the secured asset within 30 days from receipt of this notice, Bank will be constrained to sell the secured asset through public e-Auction by publication of e-Auction Sale Notice. The date, time of e-auction and Reserve Price of the property shall be informed to you separately.

Mortgage Properties: All that part and parcel of the property situated at Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Kharsa No. 248, 250, 674/252, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.) / Built-up area 607.94 Square Feets in the name of Mr. Shivansh Gautam S/o Mr. Shiv Shankar Gautam and Mrs. Kiran Gautam, and Symbolic possession taken dated 25.11.2024, and also publication in newspaper dated 26.11.2024. Physical possession taken dated 26.06.2025.

Yours faithfully,
Authorized Officer, Bank of Baroda
Branch - ROSARB Jaipur



कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कोडरमा

शुद्धि - पत्र
इस कार्यालय के ज्ञापांक-645, दिनांक-07.08.2025 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत आमंत्रित अल्पकालीन ई-पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्यां-05(R1)/2025-26/RWD/EE/KODERMA, दिनांक-07.08.2025, PR-359202 Rural Work Department(2025-26) से प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

ह0 / -
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,
कोडरमा

PR 359312 Rural Work Department(25-26)#D




विक्रम विश्वविद्यालय
उज्जैन

क्रमांक/भण्डार/2025/197 दिनांक : 08.08.2025

Photocopier Machine Large and Multifunctional printers क्रय हेतु ई-निविदा वर्ष-2025

PM USHA (MERU) Project के अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न अ.शा./संस्थानों/लेब आदि हेतु Photocopier Machine Large and Multifunctional printers क्रय किए जाने हेतु पंजीकृत निर्माता फर्म/अधिकृत विक्रेताओं से www.mptenders.gov.in के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाओं का विस्तृत विवरण विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की वेबसाइट www.vikramuniv.ac.in पर भी उपलब्ध है। निविदा का अनुमानित मूल्य लगभग राशि 4800000/- (रु. अड़तालीस लाख मात्र) है।

म.प्र. माध्यम/121531/2025 कुलसचिव



AXIS BANK


Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd. Gigaplex, NPC-1, 3rd Floor MIDC, Airoli Knowledge Park Mugslan Road Airoli Navi Mumbai-400708
Also at: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Vistalwan, Noida (U.P.)-201301, Corporate Office: Axis House, Block-B, Bomby Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025.
Registered Office: Trishul, 3rd floor, opposite Samartheshwar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.
POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002
Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred on section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) Mortgageor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) Mortgageor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) Mortgageor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) Mortgageor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) Mortgageor(s) attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower / Co-borrower - M/s Vikas Stone Cr Co Proprietor- Ship Concern Indri Zone Indri Zone Nuh Mevat Haryana Gurgaon 122103. Through Its Proprietor Mr. Rakesh Vijay Also At M/s Vikas Stone Cr Co Pro-prietorship Con-cern 308, Holi Chowk Gomah Hera South West Delhi, Delhi-110073 Through Its Pro-prietor Mr. Rakesh Vijay. 2. Mr. Rakesh Vijay S/o Hukum Chand Proprietor M/s Vikas Stone Cr Co 308, Holi Chowk Gomah Hera South West Delhi, Delhi-110073 Also At Mr. Rakesh Vijay S/o Hukum Chand, Proprietor M/s Vikas Stone Cr Co, Indri Zone Indri Zone, nuh Mevat, Haryana, Gurgaon-122103

Description of Property : All That Piece And Parcel Of Land / Industrial Property Is Situated At Waka Moja Indri, Tehsil Nuh, Haryana Comprising Of Kheawat/khata No. 1471/1526, Mustali No. 172, Kila No. 8/1 And Kheawat/khata No. 1783/1854 Mustali No. 172, Kila No. 712/ Measuring 9 Kanal 9 Marla. Bounded As Under In The Name Of Rakesh Vijay S/o Hukum Chand East -As Per Sale Deed West -As Per Sale Deed South -As Per Sale Deed North -As Per Sale Deed Five Paisa) The Above-mentioned Borrower(s) Co-

Date of Demand Notice : 11-Dec-2024 **Date Of Possession :** 07-Aug-2025 **Amount in Demand Notice (Rs.)** Rs. 1,03,01,580.75/- (Rupees One crore Threethree Lakh one Thousand Five Hundred Eighty and Seventy Five Paisa Only)

The above-mentioned Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) Mortgageor(s) are hereby given a 30 days time to repay the amount. Also the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. **Place : Noida, Date: 12.08.2025** **SD/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd.**



Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

Asset Recovery Management Branch
8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road
New Delhi-110 060

Phone : 011-40591567(Ext-240)
E-Mail : delhiarm@ktkbank.com
Website : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

APPENDIX IV (Rule 8(1))
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act), 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 06.03.2025 calling upon the borrower/ mortgageor/ guarantors (1) **Mr. Kapil Sharma S/o Mr. Vinod Sharma**, Residing at: Flat No.1007, Block F, 10th Floor, Sector 61, Max Heights Dream Homes, Nangal Kalan, Kundli, Sonipat 131028, Haryana, (2) **Mr. Vinod Sharma S/o Mr. K C Sharma**, Residing at, 46 Gharonda Apartment, Srestha Vihar, Shakupur Baramand, East Delhi, Delhi- 110092, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.10,25,837.48 (Rupees Ten Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred Thirty Seven and Paisea Eighty Four Only)** Under Overdraft & Cash Credits Account No. 39070001000000201 along with future interest from 01.03.2025, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgageors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgageors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on the **8th Day of August of the year 2025.**

The borrowers, the mortgageors and the guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of **Karnataka Bank Limited, Kundli Branch** for an amount of **Rs.10,76,204.84 (Rupees Ten Lakhs Seventy Six Thousand Two Hundred Four and Paisea Eighty Four Only)** Under Overdraft & Cash Credits Account No. 39070001000000201 along with future interest from 01.08.2025, plus costs.

[The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.]

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that Part and Parcel of Residential Flat Building on 10th Floor measuring 424.35 Sqft situated on plot / floor No. F-1007, Sector-61, Max Height Dream Homes, Nangal Kalan, Kundli, Tehsil- Rai, Dist- Sonipat, Haryana, belonging to **Mr. Kapil Sharma. Boundaries: East : Flat No. F-1008 West : Lift & Open Space North : open Below (Park & Passage) South : Passage Common**

Place : Kundli
Date : 08.08.2025

SD/- For Karnataka Bank Ltd
Chief Manager & Authorised Officer

ANAND RATHI

Anand Rathi Global Finance Limited :
Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway,
Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India

DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers hereunder have availed the financial assistance from Anand Rathi Global Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/co-borrowers have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non- Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India and Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of power conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers/mortgagors to repay the amount mentioned in the notice together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of the notices.


| Name Of The Borrower/ Co-borrower/s / Address | Outstanding Amount: Rs. 73,99,089/- | Outstanding Amount: Rs. 10,32,580/- |
|---|---|--|
| (1) Mr. K R Mishra (Borrower) WZ – 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar – II, Palam Colony, New Delhi – 110077, South West Delhi, New Delhi. | ROI 13.00% Principal Outstanding 70,19,415 | ROI 13.00% Principal Outstanding 10,12,156 |
| (2) Mr. Vishal Mishra WZ – 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar – II, Palam Colony, New Delhi – 110077, South West Delhi, New Delhi. | EMI Amount Pending 3,32,786 Broken Period Interest 1,097 | EMI Amount Pending 1,097 Broken Period Interest 1,620 |
| (3) Mrs. Alka Mishra WZ – 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar – II, Palam Colony, New Delhi – 110077, South West Delhi, New Delhi. | Over Due Interest 27,938 Legal Charges 7,670 | Over Due Interest 1,620 Legal Charges 1,100 |
| (4) Mrs. Purnima Mishra WZ – 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar – II, Palam Colony, New Delhi – 110077, South West Delhi, New Delhi. | Notice Charges 1,100 EMI Bounce Charges 3,000 | Notice Charges 1,100 EMI Bounce Charges 3,000 |
| | Total Outstanding 73,99,089 | Total Outstanding 10,32,580 |
| | APPL00004145 / APP100011448 | |

Property Address: Property No. WZ-36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar – II, Palam Colony, New Delhi – 110077, South West Delhi, New Delhi. **East:** Plot No. WZ-36A, **West:** Other's Plot, **North:** Other's Plot, **South:** 17.5 ft wide Road.

NPA DATE : 03/08/2025 | LOAN AMOUNT : Rs. 75,00,000/- | DATE OF DEMAND NOTICE : 08.08.2025 | LOAN AMOUNT : Rs. 10,50,000/-

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days from the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgageors under Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules thereunder. In case you are desirous of making any representation in response to this notice, please mark the same to our Authorised Officers Mr. Maheshwar Singh, Anand Rathi Global Finance Ltd. at 8th floor, "A" Wing, Express Zone Building, Western Express Highway Road, Goregaon (East), Mumbai-400063, only to enable us to respond in time. Please note that we shall not be responsible for not responding to any of your representations made in response to this notice if the same is addressed to any other person or place. Please note that under Section 13(3) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Date : 08.08.2025 | Place: New Delhi
SD/-, Anand Rathi Global Finance Limited, Authorised Officer



FINSEW

BAJAJ FINANCE LIMITED

Registered Office: Bajaj Finance Limited, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune – 411014
Branch Offices : Bajaj Finance Ltd, Unit No 3a, 3rd Floor, Pawa Grand, Prashant Vihar, Sector 14, Rohini, Delhi-110085


Demand Notice Under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Undersigned being the Authorized Officer of M/s Bajaj Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s) Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e., defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there on for Home loan(s)/Loan(s) Against Property advanced to them by Bajaj Finance Limited and as consequence the loan(s) have become Non Performing Assets (N.P.A's). Accordingly, notices were issued to them under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there on to their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s) Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

| Loan Account No./Name of the Borrower(s) Mortgageor(s)/Guarantor(s) | Description of Secured Immovable Property | Demand Notice Date & Amount |
|---|---|---|
| 4010HL4888152 & 401FHL4888191 Anju Sharma (Borrower) Krisnan Kumar Sharma (Co-Borrower) Both At - 118 A Platinum Enclave Sector-18 Rohini, Delhi, Pin Code - 110085 | Free Hold Bldg Portion of Ground Floor, Without Roof Rights of Built-up Property Bearing No. 60, Area Measuring 99.00 Sq. Mtrs Approx. In Block No. 9, Pocket No. 3, Sector No.-18, Situated In The Layout Plan of Rohini Residential Scheme, Rohini, New Delhi -110085.along With The Proportionate Free Hold Rights Of The Land Under The Said Property Which is Bounded As- East-remaining Portion, West -property Bearing No.74, North-road, South-plot Bearing No.-61. | 14/07/2025 Rs. 90,19,245.45/- (Rupees Ninety Lakh Nineteen Thousand Two Hundred and forty-five and Forty-Five Paise Only) as on 14/07/25 |

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers / Co-Borrowers, Guarantors are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice, failing which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets / Mortgage Property will be initiated as per provisions of Sec.13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above-mentioned properties. On which Bajaj Finance Limited has the charge.

Date: 12.08.25 Place: DELHI
SD/- Authorized Officer Bajaj Finance Limited



SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.

Registered Office : 501, Salcon Aarum, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 CIN : U65900DL2020PLC366027

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002


Notice is hereby given that the following borrower/Co-Borrowers, who have availed loan facilities from SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD., having its Head office at 3rd Floor, Add India Tower, Sector 125, Noida – 201303, have failed to serve the interest of their credit facilities to SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD., and that their loan accounts has been classified as NPA as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Borrowers have provided security of the immovable properties to SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD., the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrowers to SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. as on date are mentioned below.

The borrower/Co-Borrowers as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD., the secured creditor has initiated action against the following borrower/Co-Borrowers under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrowers fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section (2) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the properties and sell the same. The public in general is advised not to deal with property described here below.

| Name of the Borrowers / Guarantor & Mortgage | Description of Secured Assets/ Property- |
|---|--|
| M/s Real Buy 15 Through its Proprietor Mr. Pankaj Sharma (Borrower) Mr. Pankaj Sharma S/o Mr. Hardutt Sharma (Proprietor) Also At R/o C 60 Anand Vihar 3rd floor, Nehru Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh 201001, Mr. Hardutt Sharma S/o Mr. Pyarelal Sharma (Proprietor/Mortgagor), Mrs. Tanu Sharma W/o Mr. Pankaj Sharma (Guarantor) Also At R/o H. No. C 60, Nehru Nagar 3rd Floor, F Block Ghaziabad Uttar Pradesh 201001, Mr. Shiv Kumar Sharma S/o Mr. Pyarelal Sharma (Guarantor) R/o H.No. 186, New Panchvati Colony Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh 201001 | Equitable Mortgage on the Property: Residential Plot, measuring an area of 147.11 Sq. Yards i.e. 122.98 Sq. Mtrs. Situated at Plot No. 3, Part of Kharsa No. 9GH, Village Chhapuraga Tehsil Dandi District Gaudin Budh Nagar Uttar Pradesh, Registered in revenue records of Bahi No.1, Jild No-7090, Page No.247-272 Serial No. 13982 Dated 17-07-2014, In the name of Mr. Hardutt Sharma Bounded by: North: Other Plot, South: Other Plot, West: Other Plot, East: Road 20 ft wide |

Loan Account No., Demand Notice Date and Amount
Loan Account No. 101541005601 Demand Notice Date: 08-08-2025
Outstanding Amount: Rs.2,60,000/- (Rupees Two Lakhs Sixty Thousand Only) as on 07-08-2025
NPA Date : 06-07-2025

Date: 08-08-2025 Place: NOIDA
Authorised Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd



ASSETS CARE & RECONSTRUCTION ENTERPRISE LTD.

Corporate Office : Unit No. 502, C Wing, ONE BKC, Plot No. C – 66, G – Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051. Tel : 022 68643101.
Registered Office : 14th Floor, EROS Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi – 110019.
E-mail : acre.acre@acreinia.in | Website : www.acreinia.in | CIN : U65993DL2002PLC115769

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

| Sr. No. | Name of Borrower(s) (A) | Particulars of Mortgaged property / properties (B) | Date Of NPA (C) | Outstanding amount (Rs.) (D) |
|---------|---|--|-------------------|--|
| 1. | Loan Account No. NO05X0011 (EARLIER LAN 00001140 OF DHFL AND LAN S800004946 & HDHLLNO100488361 OF SCL FORMERLY KNOWN AS IHFL) 2. NAIM AHMED 2. FATIMA ZARA | C - 164, 3RD FLOOR, GALI No. - 13/7, KHARSA No. - 689/442, ULDHAN PUR, KANTI NAGAR EXTENSION, SAHADARA, DELHI - 110051. | 30.06.2021 | Rs. 26,82,450.80/- (Rupees Twenty Six Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Fifty and Paise Eighty Only) as on 17.07.2025 |

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount.

Due to persistent default in repayment of the Loan account on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as per the guidelines relating to assets classification issued by Regulatory Authority. Consequently, Section 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/her liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.


Please note that in terms of provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."

In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.

"For any grievance you may contact Mr. Mohd Sharif Malik, Grievance Redressal Officer, Phone No. 011-66115609, E-mail : complaint@acreinia.in. The detailed policy on Grievance Redressal Mechanism within the organisation can be accessed at <https://www.acreinia.in/compliance>."

For Assets Care and Reconstruction Enterprise Ltd.
Acting in its capacity as Trustee of ACRE 102 Trust
Authorized Officer

Place : DELHI



GIC HOUSING FINANCE LTD.

CORPORATE OFFICE / HEAD OFFICE : GICHLF, National Insurance Building, 6th Floor, J. T. Road, Next to Astoria Hotel, Churchgate, Mumbai, 400020 Email: corporate@gicghf.com Website: www.gicghfIndia.com
Jaipur Branch: 403 & 404A, Fort Road, Ganapati Plaza M-1, Road, Jaipur, Rajasthan-302001. Tel No: 0141-4064802.
Email Id: jaipur@gicghfIndia.com. Authorised Officer: Santosh Kumar Singh- 9838319500

DEMAND NOTICE
(IN PURSUANCE WITH SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002)

GIC Housing Finance Ltd. (GICHLF) has sanctioned Housing loan to the following borrower(s) to purchase/construction/mortgaged the residential premises by creating equitable mortgage in favor of GICHLF. The repayment of the loan(s) is irregular and the account(s) is finally classified as Non Performing Asset in accordance with directions and guidelines of National Housing Bank. GICHLF has therefore invoked its rights under section 13 (2) of the SARFAESI Act, 2002 and called upon the borrower(s) to repay the total outstanding due mentioned therein, within 60 days from the date of the said Demand notice(s). The borrower(s) is hereby again called upon publicly to pay the said total dues plus the charges & interest accrued till date within 60 days from the date of this notice failing which GICHLF shall resort to all or any of the legal rights to TAKE POSSESSION of the said property(ies) and dispose it and adjust the proceeds against the outstanding dues amount. The borrower(s) is also restrained from alienating or creating third party interest on the ownership of the property(ies).

| Sr. No. | FILE NO. / BORROWER'S / CO-BORROWER'S / SUCCESSORS/ GUARANTOR'S | Address Of The Mortgaged Properties | 13(2) Demand Notice Dt. | Total O/s As Per 13(2) Demand Notice | TOTAL O/S AS ON 11.08.2025 |
|---------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. | RJ0310610002336/ MOHAMMED JAVED HUSSAIN/ RAHISA BANO/ ZAKIR HUSSAIN/ MOHAMMED NAIEM | Plot No.- 347/71, Rana Colony, Kailash Path (Kacci Basti), Shastri Nagar, Jaipur, Rajasthan-302016. Admeasuring 107.05 Sq.Yds. | 05.03.2025 | 1969785 | 2106302 |
| 2. | RJ0310610002232/ KAVITA VERMA | Plot No.- 02, Flat No.- B-402, 4th Floor, Arihant Shree Krishnam Heights, Saraswati Vihar-A, Badi Ka Bas, Sanganer, Jaipur-302029. Admeasuring 646.78 Sq. Ft. | 18.07.2025 | 1276222 | 1302205 |
| 3. | RJ0310610002017/ Parmanand Verma / Ram Pyari Devi W/o Late Shree Bhagwan Sahay Verma (Legal Heir) / Shashi Mohan Verma S/o Late Shree Bhagwan Sahay Verma (Legal Heir) | Plot No.-31, Gali No.-1, Ashok Puri Kacchi Basti, Ajmer Road, Sodala, Jaipur-302006. Admeasuring 133.18 Sq. Yd. | 18.07.2025 | 832233 | 838524 |
| 4. | RJ0310610002567/ Jasantw Singh Choudhary/ Manju Devi | Flat No. 469, 4th Floor, Block-B, Anuraj Residency, Mukhyamantri Jan Aawas Yozna, At Kharsa No.-135-136, Jirota Kalan, Dausa, Rajasthan-303303. Admeasuring 534.23 Sq. Ft. | 18.07.2025 | 532964 | 544783 |
| 5. | RJ0310610001469/ Chanda Devi Soni/ Rajesh Kumar Soni/ Ravindra Singh Rajput | Plot No.- 63 & 64, Flat No.- F-3, 1st Floor, Shri Shyam Vatika- VI, Path No.-6, Laxmi Nagar Ext. Niwaur Road, Jhotwara, Jaipur-302012. Admeasuring 720 Sq. Ft. | 18.07.2025 | 3167278 | 3222549 |

Date: 12.08.2025, Place: Jaipur (Rajasthan)
For GIC Housing Finance Ltd.
SD/- Authorised Officer



Prakash Industries Limited

CIN: L27109HR1980PLC010724
Regd. Office: 15 Km. Stone, Delhi Road, Hissar - 125044 (Haryana)
Corp. Office: SRIVAN, Bijwasan, New Delhi - 110061
E-mail: investorshelpline@prakash.com | Website: www.prakash.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025
(₹ in lakhs)

| S. No. | Particulars | Quarter Ended (Unaudited) 30.06.2025 | Quarter Ended (Audited) 30.06.2024 | Year Ended (Audited) 31.03.2025 |
|--------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Income from operations | 103,708 | 116,686 | 401,435 |
| 2 | Profit for the period (before Tax and Exceptional items) | 9,140 | 9,049 | 35,595 |
| 3 | Profit for the period before Tax (after Exceptional items) | 9,140 | 9,049 | 35,595 |
| 4 | Profit for the period after Tax (after Exceptional items) | 9,140 | 9,049 | 35,545 |
| 5 | Profit - Total Comprehensive Income for the period (after Tax) | 8,931 | 8,914 | 34,785 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 per Share) | 17,908 | 17,908 | 17,908 |
| 7 | Other Equity (as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year) | - | - | 313,957 |
| 8 | Earning Per Share Basic (₹) | 5.10 | 5.05 | 19.85 |
| | Diluted (₹) | 5.10 | 5.05 | 19.85 |

Notes:
1. The above results for the quarter ended 30th June, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Company's Board of Directors in their respective meetings held on 11th August, 2025 and Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended is available on Stock Exchanges websites namely www.bseindia.com (BSE), www.nseindia.com (NSE) and Company's website www.prakash.com.
3. Previous periods figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary.

Place: New Delhi
Date: 11th August, 2025



By order of the Board
Vikram Agarwal
Managing Director

2 कंपनी समाचार

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| खबरों में रहे स्टॉक | लार्सन एंड टुब्रो | ल्यूपिन | वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स | बीईएमएल | जाइडस लाइफसाइंसेज |
| | | | | | |
| अदाणी पावर से 6,400 मेगावाॉट ताप विद्युत परियोजना के लिए ठेका मिला | अदाणी पावर से 6,400 मेगावाॉट ताप विद्युत परियोजना के लिए ठेका मिला | अमेरिका में इंजेक्शन यूएसपी के लिए ग्लूकार्गॉन पेश किया | पहली तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 97 प्रतिशत बढ़ा | एलएचबी कोय के लिए आईसीएफ से 1,888 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला | यूसएफडीए से डिस्ट्रिब्यूजमे हाइड्रोलोराइड टैबलेट यूएसपी के लिए अंतिम मंजूरी |
| ₹ 3,606.8 पिछला बंद भाव | ₹ 3,606.8 पिछला बंद भाव | ₹ 1,916.8 पिछला बंद भाव | ₹ 4,445.2 पिछला बंद भाव | ₹ 3,857.1 पिछला बंद भाव | ₹ 936.2 पिछला बंद भाव |
| ₹ 3,667.9 आज का बंद भाव | ₹ 3,667.9 आज का बंद भाव | ₹ 1,946.2 आज का बंद भाव | ₹ 4,813.2 आज का बंद भाव | ₹ 3,955.1 आज का बंद भाव | ₹ 955.6 आज का बंद भाव |
| 1.7 % ▲ | | 1.5 % ▲ | 8.3 % ▲ | 2.5 % ▲ | 2.1 % ▲ |

संक्षेप में

टेस्ला करेगी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार

अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में अपने सुपर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी की योजना सितंबर तक भारत में आपूर्ति शुरू करने की है। टेस्ला की क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण पूर्व एशिया) इसाबेल फैन ने राष्ट्रीय राजधानी के एरोसिटी में भारत के अपने दूसरे अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंपनी गुरुग्राम और नोएडा के अलावा साकेत में भी एक और सुपरचार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बना रही है। टेस्ला ने पिछले महीने मुंबई में अपना पहला अनुभव केंद्र खोला था और साथ ही 59.89 लाख रुपये से शुरू होने वाली अपनी मॉडल वाई कार भी पेश की थी।

ग्रास.एआई ने जुटाए 90 लाख डॉलर

ई-कॉमर्स कारोबारों के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित एनालिटिक्स समाधान प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म ग्रास.एआई ने सोमवार को ऐलान किया कि उसने प्री-सीरीज बी फंडिंग वाले दौर में 90 डॉलर की रकम जुटाई है। रकम जुटाने के इस दौर का नेतृत्व टिन मेन कैपिटल ने किया, जिनमें इनक्रेड वेल्थ, ओरजोन और मौजूदा निवेशकों इंटेग्रा पार्टनर्स और युज वेंचर्स ने भाग लिया। कंपनी ने बयान में कहा कि वह इस निवेश का इस्तेमाल भारत में एजेंट फाउंड्री के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए करेगी। यह आधुनिक वाणिज्य की चुनौतियों का समाधान करने वाले एजेंट बनाने के लिए उसका प्लेटफॉर्म है।

एलएंटैडटी को अदाणी पावर से 15,000 करोड़ रुपये का ठेका

लार्सन एंड टुब्रो (एलएंटैडटी) को 6,400 मेगावाॉट की संयुक्त क्षमता वाली आठ ताप विद्युत इकाइयां लगाने के लिए अदाणी पावर से एक बड़ा ठेका मिला है। कंपनी ने कहा है कि प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 800 मेगावाॉट होगी। एलएंटैडटी ने ऑर्डर की वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन उसके क्लासीफिकेशन के अनुसार ये ऑर्डर 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के हैं।

ल्यूपिन

अमेरिका में इंजेक्शन यूएसपी के लिए ग्लूकार्गॉन पेश किया

₹ 1,916.8 पिछला बंद भाव

₹ 1,946.2 आज का बंद भाव

1.5 % ▲

निजी 5जी नेटवर्क को सीधे स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव

दूरसंचार फर्मों ने किया विरोध

गुलवीन ओलख
नई दिल्ली, 11 अगस्त

भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें निजी 5जी नेटवर्क के लिए सीधे आवंटन के माध्यम से स्पेक्ट्रम देने की बात कही गई है। उनका कहना है कि ऐसा कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक होगा और इससे राजस्व की क्षति होगी, जो अन्यथा ऐसे स्पेक्ट्रम की नीलामी से हासिल होता।

इस मामले पर अपनी राय दोहराते हुए तर्क दिया गया है कि निजी 5जी नेटवर्क की स्वतंत्र रूप से तैनाती कंपनियों के लिए महंगी होगी क्योंकि उन्हें उपकरण, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, सुरक्षा, नेटवर्क रखरखाव और कुशल कर्मियों पर अहम पूंजीगत खर्च करना होगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के नियमित उन्नयन के लिए भी निवेश की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि कैप्टिव गैर-सार्वजनिक 5जी नेटवर्क, (जिन्हें सीएनपीएन कहा जाता है) को लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार ऑपरेटरों के माध्यम से केवल स्पेक्ट्रम लीजिंग या नेटवर्क स्लाइसिंग के माध्यम से अनुमति दी जानी चाहिए। सीएनपीएन एक संचार नेटवर्क है, जो किसी उद्यम या संस्था के अपने इस्तेमाल के लिए होता है, लेकिन



सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं। इन समाधानों पर सबसे पहले 2022 में 5जी नीलामी के समय विचार किया गया था, जिसका मकसद विनिर्माण, एफएमसीजी आदि जैसे उद्योगों को समर्पित और बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी प्रदान करना था।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक एस पी कोछड़ ने कहा, सभी उद्यम 5जी जरूरतों को स्पेक्ट्रम लीजिंग या नेटवर्क स्लाइसिंग के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के जरिये पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि इससे इस तेजी से विकसित हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, राजस्व संरक्षण और

निर्माण, आपूर्ति और कमीशनिंग शामिल है।

एलएंटैडटी के उप-प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष सुब्रमण्यन सरमा ने कहा, ‘आज के गतिशील ऊर्जा परिदृश्य में भारत में विश्वसनीय और किफायती बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है’ अदाणी समूह से यह ऑर्डर देश के महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण में अग्रणी भागीदार के रूप में हमारी भूमिका को और पुष्ट करता है।’

वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स

पहली तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 97 प्रतिशत बढ़ा

₹ 4,445.2 पिछला बंद भाव

₹ 4,813.2 आज का बंद भाव

8.3 % ▲

प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा, जो बिना किसी तुलनायोग्य विनियामक या वित्तीय दायित्वों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाती हैं।

सीओएआई ने तर्क दिया, बिना लाइसेंस वाली या विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित निजी नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मुकाबले 97 प्रतिशत बढ़ा, चिंता पैदा करते हैं क्योंकि ये कंपनियां टीएसपी की तरह अनुपालन, इंटरसेप्शन और नियामक दायित्वों से बंधी नहीं होतीं। उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्ट नियामक ढांचे के बिना दुरुपयोग, उल्लंघन या हमले की स्थिति में कोई जवाबदेही नहीं होगी। इससे सरकार की वैध इंटरसेप्शन, इस्तेमाल करने वालों का पता लगाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय सुनिश्चित करने की क्षमता में भी बाधा आ सकती है। जिससे देश को साइबर सुरक्षा, निगरानी और राजनैतिक जोखिमों के लिए खुला छोड़ दिया जा सकता है।

सीओएआई की राय ऐसे समय में सामने आई है जब दूरसंचार विभाग ने इस बारे में राय मांगी है कि क्या स्पेक्ट्रम सीधे दिया जाना चाहिए, यानी नीलामी की नियमित व्यवस्था के जरिए नहीं। सरकार ने जुलाई में निजी नेटवर्क के लिए सीधे स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग का आकलन किया था और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो उद्यम या कंपनियां दूरसंचार कंपनियों को दरकिनार करते हुए सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकती हैं।

उद्योग निकाय ने कहा, निजी नेटवर्क के मामले में सरकारी खजाने को होने वाले महत्वपूर्ण नुकसान पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि स्पेक्ट्रम की राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग का आकलन किया था और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो उद्यम या कंपनियां दूरसंचार कंपनियों को दरकिनार करते हुए सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकती हैं।

सवाल जवाब

नाइट फ्रैंक को भारत की विकास गाथा में विश्वास

भारत का ऑफिस बाजार 1 अरब वर्ग फुट ऑफिस जगह के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑफिस बाजार बनने वाला है। प्रौद्योगिकी उद्योग के समर्थन आधार से जीसीसी के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा भारत वैश्विक कंपनियों का ऐसा बड़ा बाजार बन चुका है, जो नवाचार और किफायत का मिलाजुला मेल मुहैया कराता है। इसमें वैश्विक मानकों के अनुरूप कर्मचारियों की गुणवत्ता भी शामिल है। नाइट फ्रैंक एलएलपी में वरिष्ठ साझेदार और युप चेयर विलियम बियर्डमोर-ग्रे तथा नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने मुंबई में विशाल छाबड़िया और प्राची पिसाल को बताया कि वैश्विक मंदी के बीच ऑफिस स्पेस में वैश्विक अगुआई के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है। प्रमुख अंश :

आप करीब 35 साल से इस कारोबार में हैं। आपने इस उद्योग में किस प्रकार के बदलाव देखे हैं, खास तौर पर पिछले कुछ वर्षों में? विलियम : पिछले 5 से 10 वर्षों में महत्त्वपूर्ण बदलाव निवेशक क्षेत्र में निजी पूंजी का बढ़ता प्रभाव रहा है। जहां हमने आर्थिक परिस्थितियों या भू-राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर कुछ खास किस्म के निवेशकों को बाजार में आते-जाते देखा है, वहीं प्रबुद्धता में निजी निवेशक बढ़े हैं और वे स्थायी बन गए हैं। पिछले 5 से 10 वर्षों में निजी इक्विटी का प्रचलन जारी रहा है और इसका महत्त्व बढ़ा है तथा यह बड़ी प्रभावकारी हो गई है, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद।

हम वैश्विक अनिश्चितताओं और तकनीकी दिगजों में छंटनी देख रहे हैं। क्या आप इनके उद्योग के लिए चिंता की बात नहीं है? बैजल : अब लगभग पूरी तरह से कार्यालय से काम करने का चलन है। उचित सहयोगपूर्ण स्थानों, ईएसजी अनुपालन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिहाज से प्रति व्यक्ति स्थान का उपयोग काफी बढ़ गया है। देश में जीसीसी और भारत केंद्रित कारोबारों की

सेकी का लाभ 15% बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) का वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ 15 प्रतिशत बढ़कर 501.92 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में एकल आधार पर परिचालन आय 15,185.10 करोड़ रुपये रही जबकि शुद्ध लाभ 501.92 करोड़ रुपये रहा।




आवश्यकता काफी बढ़ी है। इन दोनों कारकों ने ऑफिस की मांग में योगदान दिया है। 3 से 4 साल पहले शुरू हुई जीसीसी की गतिविधियां ऑफिस की आवश्यकता की रफ्तार को और बढ़ा रही है। ये वे कंपनियां हैं, जो अब भारत में विश्वास करती हैं। विलियम : भारत में वैश्विक कंपनियों के लिए प्रमुख प्रेरकों में से एक है नवाचार और लागत का मेल। एक ही सिक्के के दो पहलू। भारत उन कुछ स्थानों में से एक है, जो अधिक गुणवत्ता वाले कर्मचारियों के साथ यह मुहैया करा सकता है।

आकार और नाइट फ्रैंक के वैश्विक कारोबार में भारत के योगदान के लिहाज से आप अगले 5 से 10 सालों में इसे कहाँ देखते हैं? विलियम : दुनिया भर में हमारे 20,000 कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 2,000 भारत में हैं। अगले 5 से 10 सालों में एशिया हमारे लिए बड़ा केंद्रबिंदु है। यहीं हमें विकास के वास्तविक अवसर दिखाई दे रहे हैं। बैजल : भारत पर हमारा ध्यान रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। नाइट फ्रैंक में भारत पर आज जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं रहा। नाइट फ्रैंक भारत की विकास गाथा में विश्वास करती है।

एसजेवीएन का लाभ घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 36 प्रतिशत घटकर 227.58 करोड़ रुपये रहा। खर्च में बढ़ोतरी से उसके लाभ में कमी आई है। एसजेवीएन ने सोमवार को शेयर बाजारों को अप्रैल-जून तिमाही के इस वित्तीय नतीजे की सूचना दी। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 357.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।



प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन: L27109HR1980PLC010724

पंजीकृत कार्यालय: 15 किलोमीटर स्टोन, दिल्ली रोड, हिसार-125044 (हरियाणा)

कार्पोरेट कार्यालय: श्रीवन, विजयवाडन, नई दिल्ली-110061

ईमेल: investorshelpline@prakash.com | वेबसाइट: www.prakash.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(लाख रुपये में)

| क्र. सं. | विवरण | समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित) | | समाप्त वर्ष (लेखावर्ष) |
|----------|---|-------------------------------|------------|------------------------|
| | | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.03.2025 |
| 1 | परिचालनों से आय | 103,708 | 116,686 | 401,435 |
| 2 | अवधि हेतु लाभ (कर तथा अपवादित मंदां से पूर्व) | 9,140 | 9,049 | 35,595 |
| 3 | कर पूर्व अवधि हेतु लाभ (अपवादित मंदां के परचाय) | 9,140 | 9,049 | 35,595 |
| 4 | कर परचाय अवधि हेतु लाभ (अपवादित मंदां के परचाय) | 9,140 | 9,049 | 35,545 |
| 5 | लाभ – अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर परचाय) | 8,931 | 8,914 | 34,785 |
| 6 | प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य) | 17,908 | 17,908 | 17,908 |
| 7 | अन्य इक्विटी (वैसागत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है) | - | - | 313,957 |
| 8 | आय प्रति शेयर – बेसिक (₹.) | 5.10 | 5.05 | 19.85 |
| 9 | (₹ 10 प्रति शेयर अंकित मूल्य) डाइल्यूटेड (₹.) | 5.10 | 5.05 | 19.85 |

टिप्पणियाँ:


1. 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 11 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में अनुमोदित किया गया है और कंपनी के सार्वधिक लेखा परीक्षकों ने एक संमति समीक्षा की है।

2. उपरोक्त सेवा (एलओडीआर) विलियम, 2015 के विलियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विनूत प्रारूप का एक अंश है। समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com (बीएसई) और कंपनी की वेबसाइट www.prakash.com पर उपलब्ध है।

3. जहाँ भी आवश्यक हो, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 अगस्त, 2025



बोर्ड के आदेशानुसार
वित्त अग्रवाल
प्रबंध निदेशक

आधार हाउसिंग फायनैन्स लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई – 400069.

हिसार शाखा: दुकान नं. -86, दूसरी मंजिल, कार्मिशियल अर्बन इस्टेट-II, दिल्ली रोड, हिसार- 125001 (हरियाणा)

Aadhar

Housing Finance Ltd

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिस्कुयुरिटीइंडाेशन एंड रिस्कटंक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्मेसन्ट ऑफ सिस्कुयुरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिस्कुयुरिटी इंटस्ट (इंफोर्मेसन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपदित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पुर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिस्कुयुरिटी इंफोर्मेसन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ संपदित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओं) / प्रतिभूतिकर्ता(ओं) एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। घरोहर् संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समग्र सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएँ ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नही करें वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

| क्र. | ऋणकर्ता(ओं) /प्रतिभूतिकर्ता(ओं) (शाखा का नाम) | धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति) | मांग सूचना का दिनांक एवं राशि | आधिपत्य की दिनांक |
|------|--|--|--|----------------------|
| 1 | (लोन कोड नं. 095000000389 / हिसार शाखा) कुलदीप पित्त शी अमर लाल (ऋणी), बाला पति अमर लाल (सह-ऋणी), राजेन्द्र (जमानतदार) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 86 9 8 0 4 340 0 18 40 1 10 खेवट या खाता नंबर 181 227 बीपीओ दुर्जनपुर तहसील उचाता जौदहरियाणा - 126152 चतुर्सीमाएँ:– पूर्व – जिले सिंह का मकान, पश्चिम – गली, उत्तर – गली, दक्षिण – आजाद का मकान | 12-04-2025 & ₹ 9,78,629/- | 06-08-2025 |

स्थान: हरियाणा
दिनांक: 12-08-2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

चंडीगढ़ संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा सी।ओ आइडिया को वर्किंग, तृतीय तल, एस.सी.ओ 32, 33, 34 सेक्टर-17-सी, चंडीगढ़-160017 से प्रकाशित एवं इम्प्रेसस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं.-22, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, पंचकूला-134115, हरियाणा से मुद्रित संपादक : केलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. CHAHIN/2008/24509 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।

रवामित्त : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैगमन सेंटर, बिड़ला सेंटरग्रुपन के सामने, पीबी मार्ग, वली, मुंबई-400013 ईमेल : subs_bs@bsmail.in या 57575 पर REACHBS एसएमएस करें। कोई हवाई अधिभार नहीं

सर्वस्वीकरण और संकुलेशन के लिए संपर्क करें – सुश्री मानसी सिंह, हेड-कंटेन्टर रिलेशन। बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैगमन सेंटर, बिड़ला सेंटरग्रुपन के सामने, पीबी मार्ग, वली, मुंबई-400013 ईमेल : subs_bs@bsmail.in या 57575 पर REACHBS एसएमएस करें। कोई हवाई अधिभार नहीं

चंडीगढ़ | मंगलवार, 12 अगस्त 2025

बिज़नेस स्टैंडर्ड